

1390

Reg-118

319
12/11/14

DeputyRegistrar (M)

207

May kindly see the office note dated dated 8.7.2014(at Flag 'X'), regarding submission of movable and immovable property acquired/ held by Sri Rajiv Bharti, the then Additional Director(Training), JTRi, Lucnow now posted as Additional District and Sessions Judge, Deoria for the financial years 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 which was submitted before Hon'ble Justice Arun Tandon, Adminisitrative Judge, Lucknow for kind perusal and orders, on the perusal of the statement His Lordship has been pleased to order as under:-

“Reply along with details of the rent and gifts received by wife be called for from the Judicial Officer who may also declare the total no. of children who are school/college going and the amount paid towards their fees.”

In response of the aforesaid Court's order, office has sent a letter dated 29.10.2014(flag 'B')

In reply of aforesaid Court letter, officer has send the required information/papers to the Court vide his letter dated 11.11.2014(at flag 'AA') which is at (flag 'AA') and reproduced below in verbatim:-

महोदय,

सादर निवेदन है कि, मेरे दो पुत्र क्रमशः नवीन भारती वर्तमान आयु लगभग 15 वर्ष कक्षा-10 में एवम् आयुष भारती वर्तमान आयु लगभग 12 वर्ष कक्षा-7 में वर्तमान में मेरे पूर्व तैनाती स्थल लखनऊ में अध्ययनरत है। बीच सत्र में मेरा स्थानांतरण होने के कारण, तथा मेरे ज्येष्ठ पुत्र का 10वीं बोर्ड होने के कारण, मेरे पुत्रगण इस सत्र तक लखनऊ में निवास कर रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र वर्ष 2009 से पूर्व देवबन्द(सहारनपुर)में अध्ययनरत थे। मेरे सर्विस में आने के बाद से उनके द्वारा जो शिक्षा ली जा रही है, उसका विवरण निम्न प्रकार है।

नाम	कक्षा	स्कूल	त्रैमासिक फीस
नवीन भारती पुत्र	iv	एस.के.हैप्पी स्कूल देवबन्द	₹ 1200.00
राजीव भारती	v	सेन्ट डानबोस्को स्कूल लखीमपुरखीरी	1640.00
	vi	" " "	₹ 2225.00
	vii	" " "	₹ 2650.00
	viii	दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ	₹ 7,900.00
	ix	जागरण पब्लिक स्कूल लखनऊ	₹ 8,400.00
	x	" " "	₹ 10,100.00

आयुष्य भारती	I	एस.के.हैपी स्कूल देवबन्द	≈ 900.00
पुत्र	II	सेन्ट जॉन बोस्को स्कूल लखनौपुरी	1490.00
राजीव भारती	III	" " "	≈ 1950.00
	IV	" " "	≈ 2200.00
	V	दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ	≈ 7,000.00
	VI	सी.एम.एस.गोमती नगर लखनऊ	≈ 7200.00
	VII	" " "	≈ 8700.00

महोदय जहां तक मेरी पत्नी की आय का सम्बंध है। मेरी पत्नी एम.ए. (अर्थशास्त्र) तथा बी०ए०ड० है। मेरे न्यायिक अधिकारी बनने से पूर्व वह ट्यूशन (कोचिंग) द्वारा लगभग 9,000-10,000/रु० प्रतिमाह अर्जित करती थी। मेरे न्यायिक अधिकारी बनने के पश्चात तथा वर्ष 2009 में देवबन्द छोड़ देने के कारण, उनके द्वारा अपनी कोचिंग व्यवसाय को बन्द कर दिया गया।

मेरे पिता श्री प्रेमचन्द्र भारती जो इस समय लगभग 75 वर्ष के हैं, उनसे अब व्यवसाय कार्य नहीं होता। अतः उनके द्वारा अपनी सम्पत्ति, जिसमें एक प्रतिष्ठान मैसर्स प्रेम क्लाइथ हाऊस एवम् एक तीन मंजिला मकान, एवम् प्लाट के सम्बंध में वसीयत पूर्व में हमारे पक्ष में की गयी थी, जो वर्तमान में उनके द्वारा अपने ही रक्त सम्बंधी को मु०-5,000/रु० (पांच हजार) प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ है। चूंकि पिता जी हमारे साथ ही रहते हैं अतः वे किराये की धनराशि को अपनी पुत्रवधू श्रीमती रेनू भारती को उपहार स्वरूप देते रहते हैं।

इसी प्रकार रेनू भारती के नाम से दो प्लाट जो आवासीय कालोनी में स्थित हैं, जो मेरे पिता जी के प्रतिष्ठान पर जो सेवक था, उसके सम्बंधी गण को क्रमशः एक प्लाट 1,500/रु० तथा दूसरा प्लाट 1,400/रु० प्रतिमाह की दर से दिया हुआ है। जहां वे लोग अपनी सब्जी की दुकान एवं कपड़े प्रेस का कार्य करके रोजगार करते हैं। मेरी पत्नी के नाम से एक दुकान सहानपुर में थी, जिसमें उनके रिश्तेदार गोदाम के रूप में प्रयोग करते थे। मेरी पत्नी को उससे भी मु०-1,500/रु० मासिक एवम् वार्षिक मु०-18,000/रु० की आमदनी हो जाती है। उपरोक्त प्लाट एवम् दुकान जो श्रीमती रेनू भारती के नाम से हैं वे अचल सम्पत्ति विवरण के पैरा-सी-डी में पूर्व से वर्णित किये हुये हैं।

महोदय मेरी पत्नी श्रीमती रेनू भारती के पिता श्री केवल राम चूचरा एवम् भाई श्री शिव चूचरा का सहारनपुर में होलसेल क्लाइथ मर्चेंट का व्यवसाय है, एवम् एक भाई श्री देव चूचरा सूरत में होलसेल टैक्सटाइल्स का काम करते हैं। विभिन्न अवसरों एवम् त्यौहारों पर मेरी पत्नी को उनके माता-पिता एवम् दोनों भाईयों द्वारा जो नेग, व्यवहार, रक्षाबन्धन, भैयादूज एवम् बच्चों के जन्म दिन पर तथा छुट्टियों में बच्चों को उनके नाना-नानी द्वारा दिये गये उपहार से मेरी पत्नी को पैतिस-चालिस हजार रु० प्रतिवर्ष उपहार के रूप में मिल जाते हैं।

माननीय महोदय ससम्मान निवेदन है कि, मेरे द्वारा स्वयं का एवम् मेरी पत्नी की आय का जो स्रोत सम्पत्ति विवरण में दिया गया है, वह स्वच्छ एवम् निर्मल मन से बिना किसी दुर्भावना के दिया गया है। बच्चों के शिक्षा के सम्बंध में अदा की गयी फीस की जो रसीदें उपलब्ध हैं, उन्हें संलग्न किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित।

Ref: 118

3/

If approved, the file alongwith letter^{dt.} 11.11.2014 with enclosures may be laid before Hon'ble^{Mr.} Justice Arun Tandon, Administrative Judge, Lucknow Judgship for His Lordship's kind perusal and orders ?

Md. Ashraf R.O.
15.11.14
K. Jaiswal
15.11.14
S.O.

Sr. Registrar (S) (B)

Submitted for kind perusal and onward submission before Hon'ble Mr. Justice Arun Tandon Administrative Judge, Lucknow for His Lordship's kind perusal and orders.

J. D. Singh
15.11.14
D.R.M.

Hon' ble Mr. Justice Arun Tandon
Administrative Judge, Lucknow

Submitted for kind perusal & orders.

file received back
without order from the then
Hon. A.J. Due to change of
Hon. A.J.

U. C. Singh
17/11/14
Senior Registrar (Budget)

D.R.(M)

Sr. Registrar (B)
6.2.15

Sr. (Admin. A.C)

D.R.(M)
07.2.15

Mr. Ashraf
15/2
07.2.15